

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड जनपद—

पत्रांक संख्या—

दिनांक—

स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र ।

01. आवेदक का नाम—
 02. पिता/पति का नाम—
 03. पदनाम—
 04. नियुक्ति का प्रकार—
 05. वर्तमान तैनाती का स्थान—
 06. वर्तमान तैनाती की तिथि—
 07. पूर्व में तैनात कार्यालयों का विवरण—

क्रमांक संख्या	तैनाती का स्थान	तैनाती की अवधि	दुर्गम/अति- दुर्गम/सुगम	टिप्पणी
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

08. श्रेणी जिसमें स्थानान्तरण चाहते हैं— (कोई भी एक विकल्प चुनें)

09. स्थानान्तरण से छूट चाहने वाले कार्मिक (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) –

- वरिष्ठ कार्मिक
 - दुर्गम में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण
 - गंभीर रोगग्रस्त / विकलांग कार्मिक
 - पुत्र/पुत्री की विकलांगता
 - अर्धसैनिक / सैनिक में तैनात कार्मिकों के पति / पत्नी

10. अनुरोध उप श्रेणी (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) –

- | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <input type="radio"/> गंभीर रोग | <input type="radio"/> मानसिक | <input type="radio"/> पुत्र/पुत्री | <input type="radio"/> उत्तराखण्ड | <input type="radio"/> विधुर/विधवा/ |
| ग्रस्त/विकलांग | रूप से | की | सरकार में | तलाकशुदा/वरिष्ठ |
| | विक्षिप्त | विकलांगता | कार्यरत | कार्मिक |
| | बच्चों के | | पति—पत्नी | |
| | माता—पिता | | | |
| <input type="radio"/> दुर्गम से दुर्गम | <input type="radio"/> सुगम से | | | |
| | दुर्गम | | | |

11. स्थानान्तरण के 10 विकल्प—

क्रमांक	चिकित्सालय का नाम	श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

12. संलग्न साक्ष्यों की पृष्ठ संख्या—

(साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य है)

(नोट— ऐसे वरिष्ठ चिकित्साधिकारी जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पद का प्रभार लिये जाने के इच्छुक नहीं हैं, अनिवार्य रूप से वेबसाईट में उपलब्ध घोषणापत्र भी हस्ताक्षरित कर जमा करेंगे।)

हस्ताक्षर—

नाम—

पदनाम—